



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2011/भाद्र 18, 1933

No. 1723]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011/BHADRA 18, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2011

सं. 72 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : गेहूँ के निर्यात पर लगी रोक को हटाना ।

का. आ. 2062(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. अधिसूचना सं. 33 (आर ई-2007)/2004-2009, दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, आई टी सी (एचएस) की अनुसूची-2 के अध्याय-10 की क्रम संख्या 46क की प्रविष्टि के मद्दे तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
46क	1001 10	किग्रा.	ड्यूरम गेहूँ :	मुक्त	सिर्फ सीमा-शुल्क ई डी आई
	1001 10 90	किग्रा.	अन्य	मुक्त	पत्तनों के माध्यम से निर्यात
	1001 90	किग्रा.	अन्य :	मुक्त	की अनुमति ।
	1001 90 20	किग्रा.	अन्य गेहूँ	मुक्त	
	1001 90 39	किग्रा.	अन्य	मुक्त	

उप-शीर्षक टिप्पणी :—“ड्यूरम गेहूँ” शब्द का अर्थ है ट्रिटिकम ड्यूरम प्रजाति के गेहूँ तथा ट्रिटिकम ड्यूरम के अन्तर्विनिर्दिष्ट संकरण से व्युत्पन्न संकर गेहूँ जिसमें उतने ही (28) क्रोमोसोम हों जितने कि प्रजाति में होते हैं ।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

गेहूँ का निर्यात मुक्त कर दिया गया है । निर्यात केवल सीमा-शुल्क ई डी आई पत्तनों के जरिए होगा ।

[फा. सं. 01/91/180/773/ए एम 10/निर्यात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2011

No. 72 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Removal of ban on export of wheat.

S.O. 2062(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby make the following amendments in the ITC (HS) Classifications of Export and Import items, as amended from time to time :—

2. In supersession of Notification No. 33 (RE-2007)/2004-2009, dated 8th October, 2007, the following amendments are made with immediate effect against entry at Sl. No. 46A of Chapter 10 of Schedule 2 of ITC (HS) :

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of Restriction
46A	1001 10	Kg.	Durum wheat :	Free	Export permitted through Custom EDI ports only
	1001 10 90	Kg.	Other	Free	
	1001 90	Kg.	Other :	Free	
	1001 90 20	Kg.	Other wheat	Free	
	1001 90 39	Kg.	Other	Free	

Sub-heading Note :—The term “durum wheat” means wheat of the *Triticum durum* species and the Hybrids derived from the inter-specific crossing of *Triticum durum* which have the same number (28) of chromosomes as that species.

3. Effect of this notification :

Export of wheat has been made free. Exports shall be only through Custom EDI ports.

[F. No. 01/91/180/773/AM 10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade